



CIN : L74110HP2004LC027558

September 04, 2023

To

**The Listing Department
Bombay Stock Exchange Limited
Department of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumbai – 400001**

**The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block-G
Bandra Kurla Complex
Mumbai – 400051**

Trading Symbol: JHS

Scrip Code: 532771

Subject: Submission of Copies of Newspaper Advertisement of Notice of 19th Annual General Meeting of the company prior to circulation of notices and copies of financial statements.

Dear Sir,

Pursuant to various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) read with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular Nos.14/2020 (dated 8th April 2020), 17/2020 (13th April 2020), 20/2020 (dated 5th May 2020), 02/ 2021 dated January 13, 2021, General Circular no. 02/2022 dated May 05, 2022 and the latest being 10/2022 (28th December, 2022), issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No(s). SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (12th May 2020), SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 (15th January, 2021), SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 (13th May, 2022) and the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 (5th January, 2023) issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular/s"), the Notice of 19th AGM to be held on September 28th, 2023 was published prior to circulation of notices and copies of financial statements.

Further as per the said circulars the same was published on September 04, 2023, in Business Standard (English) and Business Standard (Hindi). Copies of the same are hereby enclosed for your records.

Furthermore, these publications are also uploaded on the website of the company viz. <http://www.svendgaard.com>

This is for your kind information and record. Kindly acknowledge the receipt.

**Thanking You,
For JHS Svendgaard Laboratories Limited**

**Komal Jha
Company Secretary & Compliance officer**

Encl: A/a

BLACK ROSE INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 145/A, Mittal Tower, Nariman Point, Mumbai - 400 021
Tel: +91 22 4333 7200 | Fax: +91 22 2287 3032
E-mail: investor@blackrosechemicals.com | Website: www.blackrosechemicals.com
NOTICE REGARDING 33rd ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

- Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") on **Friday, 29th September, 2023 at 11:30 a.m. IST**, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circulars No. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020, 02/2021 dated 13th January, 2021, 02/2022 dated 5th May, 2022 and 10/2022 dated 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- In compliance with the relevant circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2022-23 will be sent to all the members of the company whose e-mail address are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.blackrosechemicals.com, on the website of the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.
- Manner of registering/updating e-mail address(es) and Bank Account Details:**
 - Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email address and bank details for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means are requested, are required to register/update their details by submitting Form ISR-1 available on website of the Company at www.blackrosechemicals.com duly filled and signed alongwith requisite supporting documents to Satellite Corporate Services Private Limited, A/106-107, Dattani Plaza, East West Industrial Compound, Andheri Kuria Road, Near Safed Pool, Saki Naka, Mumbai - 400 072.
 - Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their e-mail address and update their bank account details with the Depository Participants ("DP") with whom they maintain their demat account(s).
- Manner of casting vote(s) through e-voting and joining of AGM through VC/OAVM:** Members can cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system (e-voting). The manner of voting, including voting remotely (remote e-voting) by members holding shares in dematerialised mode, physical mode, and for members who have not registered their email address has been provided in Notice of AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.blackrosechemicals.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically at the AGM. The login credentials for casting vote(s) through e-voting and joining virtual meeting are requested to follow instructions given in the Notes to Notice of AGM. The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.
- Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the **Register of Members and Share Transfer Books** will remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Friday, September 29, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and determining the entitlement of shareholders to the dividend.
- The Board of Directors at its meeting held on May 26, 2023 has recommended final dividend of ₹ 0.55 paise per equity share of face value of ₹ 1/- each. The dividends, if approved, by the members at the AGM, will be paid electronically to the members who have updated their bank account details for receiving dividend through electronic mode. For members, who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts will be sent to them at their registered address.
Pursuant to Income Tax Act, 1961, as amended by Finance Act 2020, dividend income shall be taxable in the hands of the shareholders and the Company shall be required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates from the dividend to be paid to shareholders. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them to the Company at its e-mail id investor@blackrosechemicals.com on or before the Record Date i.e. Friday, 22nd September, 2023.
- Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote(s) through remote e-voting or e-voting during the AGM.

For Black Rose Industries Limited
Sd/-
Harshita Shetty
Company Secretary and Compliance Officer

Date: September 2, 2023
Place: Mumbai

COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED

CIAL/CIVIL/613 **TENDER NOTICE** 01.09.2023

Sealed tenders are invited from reputed agencies possessing the requirement as per details given in our website www.cial.aero for the work mentioned below at Cochin International Airport, Nedumbassery.

Name of Work	Estimated Amount (Rs.)	EMD (Rs.)	Period of Completion
Piling work for Hospitality and Sporting facilities at CIAL Golf Club	Rs. 520 Lakhs	Rs. 11,00,000/- (Rupees Eleven lakh only)	03 Months

Interested agencies may submit their applications to the Managing Director, Cochin International Airport Ltd, Kochi Airport (P O), 683111 on or before 11/09/2023 for Prequalification. Sd/-
Managing Director



CIN: (L74210WB1964PLC026234)
Registered Office: DD-30, Sector I, Salt Lake City, Kolkata - 700 064 Ph: 033 - 4019 0000; Fax - 033 - 4019 0001 Website: www.tantiaigroup.com E-mail: cs@tantiaigroup.com

NOTICE TO THE MEMBERS
a. NOTICE is hereby given that the 58th Annual General Meeting (AGM) of Tantia Constructions Limited is scheduled to be held on **Saturday, 30th September, 2023 at 01.00 P.M. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM)** in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020; 17/2020 dated 13th April 2020; 20/2020 dated 5th May, 2020; 22/2020 dated 15th June, 2020; 32/2020 dated 28th September, 2020; 39/2020 dated 31st December, 2020 02/2021 dated 13th January, 2021 and 02/2022 dated May 5, 2022 respectively and other applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020. The Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM facility provided by **Central Depository Services Limited (CDSL)**. The instructions for joining the AGM through VC/OAVM and the manner of taking part in e-voting process forms part of the notice convening the AGM.

b. In compliance with the above circulars, soft copies of the Notice convening the 58th AGM ("Notice") and the Annual Report for the financial year 2022-23 will only be sent through e-mail to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/ Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/s Maheshwari Datamatics Private Limited ("MDPL") Depository Participants. The Notice will also be available on the Company's website at www.tantiaigroup.com and on the website of the stock exchanges where equity shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

c. Members holding shares in physical mode who have not yet registered/updated their email addresses requested to register the same on MDPL's online portal <http://mdpl.in/all/forms/email> update form by following the instructions mentioned therein, to receive the Notice, Annual Report and login ID/ password for e-voting.

d. Members holding share in demat mode should update their email addresses and bank mandate directly with their respective Depository Participants.

e. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Monday, 25th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

This notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the applicable circulars issued by MCA and SEBI.

For Tantia Constructions Limited
Sd/-
Tarun Chaturvedi
Director
DIN : 02309045

Place: Kolkata
Date: 01.09.2023

JHS Svendgaard Laboratories Limited

Corporate Identity Number: L7410HP2004PLC027558
Regd. Office: Trilokpur Road, Khari Kaln - Amb, Tehsil - Nahan
Distt: Simlaur, Himachal Pradesh
Ph. No.: 011-2949875 and Fax No. 01702-238830
Website: www.svendgaard.com • Email: enquiry@svendgaard.com

NOTICE OF 19th ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION
Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting (AGM) of the members of JHS Svendgaard Laboratories Limited (Company) will be held on **Thursday, 28th September 2023 at 02:00 P.M.** through video conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed read with various Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) read with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020 (dated 8th April, 2020), 17/2020 (13th April 2020), 20/2020 (dated 5th May 2020), 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular no. 02/2022 dated May 05, 2022 and the latest being 10/2022 (28th December, 2022), issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No(s). SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (12th May 2020), SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 (15th January, 2021), SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 (13th May, 2022) and the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/CIR/2023/4 (5th January, 2023) issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue. Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2023 of the Company shall be sent to all the members, as on the cut-off date i.e. 25th August, 2023, whose email ids are registered with the Company/RTA/Depository participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the 19th AGM and Annual Report to the Members has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. However, a member is also entitled to receive the hard copies of the same via writing us at cs@svendgaard.com. The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company https://www.svendgaard.com/annual_reports.html and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on website of National Securities Depository Limited (NSDL) website at <https://www.evoting.nsdl.com>.

The instructions for attending the AGM through VC and detailed manner of electronic voting are being provided in the Notice of AGM. The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") and facility of e-voting system during the AGM ("e-voting") (collectively referred as "electronic voting") to eligible members as per applicable provisions on all the business items set out in the Notice of AGM. The facility of e-voting will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The remote e-voting period commences on 25th September, 2023 (09:00 A.M.) and ends on 27th September, 2023 (05:00 P.M.). During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 21st September 2023, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through VC shall be counted for reckoning the quorum under section 103 of the Act.

Manner of registering/ updation of e-mail address:
Members are requested to update their KYC in their folio(s), register their email addresses, etc. or may intimate any changes if required. The process of registering/ changing the same is mentioned below:
In case, Physical Register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with the Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company. The said forms and relevant provisions of SEBI circular (circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023, as amended) are available on the Company's website at www.svendgaard.com. In the absence of any of the required documents in a folio, on or after October 1, 2023, the folio shall be frozen by the RTA. Intimation letters along with Business Reply Envelopes for furnishing the required details are being sent by the Company.
Contact details of RTA are as follows:
J.K.Singla
Senior Manager
Alankit Assignments Limited
Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055
Telephone- 011-42541960, 011-2352001
Mobile- 989888264
Mail- jsingla@alankit.com

In case, Demat Holding Please contact your DP and register email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP

For temporary registration of email for the purpose of receiving of AGM Notice along with annual report for 2022-23, members may write to cs@svendgaard.com

The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide the electronic voting facility and VC facility in case of any queries in connection with AGM, members may contact -

Name	Email	Address	Contact No.
Ms. Pallavi Mhatre	pallavid@nsdl.co.in	Trade Floor - A Wing, Kamala Mills Compound Lower Panel, Mumbai - 400013	+91 22 24994545
NSDL	evoting@nsdl.co.in		1800-222-990

The Notice of the AGM and Annual Report 2022-23 will be shared shortly to the members in accordance with applicable laws on their registered email addresses.

By Order of the Board of Directors
For JHS Svendgaard Laboratories Limited
Sd/-
Komal Jha
Company Secretary

Date : 02.09.2023
Place : New Delhi

Sicagen India Limited

CIN : L74900TN2004PLC053467
Regd. Office: 4th Floor, SPIC House,
No. 88, Mount Road, Quinary, Chennai-600032
Website: www.sicagen.com / E-mail: companysecretary@sicagen.com Ph: 044 4075 4075

NOTICE OF 19th ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be convened on Tuesday, 26th September 2023 at 2:00 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed thereunder ("the Act") read with General Circular Nos. 20/2020 dated 5th May 2020 and 10/2022 dated 28th December 2022 and other relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular dated 05th January 2023, read with Circular dated 12th May 2020, 15th January 2021 and 13th May 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India in this regard (hereinafter collectively referred as "Circulars") to transact the business as set out in the Notice of the 19th AGM.

In compliance with the above Circulars, soft copy of the 19th AGM Notice and Annual Report for the year 2022-23 have already been sent on 02.09.2023 by e-mail to all the shareholders whose e-mail address are registered with the Company or their respective Depository Participants ("DPs") and the same are also available on Company's website (www.sicagen.com), BSE Ltd (www.bseindia.com) and Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) (www.evotingindia.com).

Instructions for remote e-voting and e-voting during AGM:

In compliance with the provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the relevant rules framed thereunder and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard 2 of the Institute of Company Secretaries of India and abovementioned circulars, the Company is arranged to provide e-Voting facility through CDSL to the members to exercise their right to vote on resolutions as set out in the 19th AGM Notice. The details of e-voting facility are as under:

- The members holding shares in physical form/demat form and who have not registered their e-mail address with the Company with their respective Depository Participants can obtain soft copy of the aforesaid AGM notice and Annual Report and login details for joining the AGM through VC/OAVM including e-voting by sending a request mail to investor@cameo.com.
- The remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. on 23rd September 2023 and end at 5:30 p.m. on 25th September, 2023.
- Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the Record date (Tuesday, 19th September, 2023) may cast their vote electronically through CDSL e-voting portal on each item of the businesses as set forth in the 19th AGM Notice during the abovementioned e-voting period.
- Remote voting shall be disabled for voting after the date and time mentioned above. Once the vote on a resolution is cast by a member, the members shall not be allowed to change it subsequently.
- Any person who acquired shares of the Company and became member of the Company after dispatch of the Notice of 19th AGM and holding shares as on the Record date may obtain the login id and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if the members already registered with CDSL e-voting portal, then such member can use their existing User ID and password for casting their vote.
- The facility of voting will also be made available during the AGM and the members attending the AGM through VC, who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote through e-voting system at the AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on Record date only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.
- The Company has appointed M/s. KRA and Associates, Practicing Company Secretaries, Chennai as the Scrutinizer to scrutinize the entire e-voting process and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner.
- In case of any queries and issues attending AGM & e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact toll free no: 1800 22 55 33 or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).
- The Company had also published a notice in Business Standard and Makkal Kural newspapers on Wednesday, 30th August, 2023 regarding the aforesaid AGM and to register the e-mail id of the members who have not updated the same.
- Please keep your e-mail id registered with the Company/your Depository Participant to receive all future and timely communications.

Book Closure:

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the relevant rules made thereunder read with Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from Wednesday, 20th September, 2023 to Tuesday, 26th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of aforesaid AGM and payment of dividend for the year 2022-23.

By order of the Board
For Sicagen India Limited
Sd/-
Ankita Jain
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Chennai
Date: 02.09.2023

CANTABIL RETAIL INDIA LIMITED

Registered Office: B- 16, Ground Floor, Lawrence Road Industrial Area, Delhi - 110 035
Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1989PLC034995. Tel: 91-11-41441488, 91-11-46818101
Website: www.cantabilinternational.com ; E-mail: investors@cantabilinternational.com

NOTICE TO 35th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE**Annual General Meeting:**

NOTICE is hereby given that the Thirty-Fifth (35th) Annual General Meeting ("AGM" or "Meeting") of the Members of Cantabil Retail India Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 28, 2023 at 11.00 A.M. (IST) at Palm Green Hotel and Resort, Main GT Karnal Road, Bakoli, New Delhi-110036, to transact the business as set out in the Notice of the AGM

The Company has sent the Notice of the 35th AGM along with the Annual Report 2022-23 on Saturday, September 02, 2023, through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories and also through physical mode to the Members of the Company. The dispatch of Notice of AGM has been completed on Saturday, September 02, 2023.

The Annual Report 2022-23 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Annual Report for the 35th AGM is available on the website of the Company at www.cantabilinternational.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com

Remote e-Voting:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

- The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of E-voting	From 10.00 a.m. (IST) on Monday, September 25, 2023
End of E-voting	Ends 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, September 27, 2023

The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time;

THE INTRUCTIONS OF SHAREHOLDERS FOR REMOTE E-VOTING:

Step 1: Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

Step 2: Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

Login method for e-Voting for individual shareholders holding securities in Demat mode CDSL/NSDL is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL Depository	<ol style="list-style-type: none"> Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are: http://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-voting link available on www.cdslindia.com home page or click on https://evoting.cdslindia.com/Evoting/LoginTheSystem link which will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL Depository	<ol style="list-style-type: none"> If you are already registered for NSDL IDEAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under IDEAS" section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period. If the user is not registered for IDEAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDEAS" Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/ideasDirectReg.jsp Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under "Shareholder/Member" section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants (DP)	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800225533
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

Step 2: Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

- Login method for Remote e-Voting for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.
 - The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
 - Click on "Shareholders" module.

- Now enter your User ID
 - For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- If you are a first-time user follow the steps given below:

PAN	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat. Enter your 10 digit alpha-numeric "PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login.
OR Date of Birth (DOB)	• If both the details are not recorded with the depository or company, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- <

